



## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2012             | 2013             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 24 अगस्त         | 16 अगस्त         | 23 अगस्त         | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>11,044.53</b> | <b>12,072.01</b> | <b>11,975.03</b> | <b>-96.98</b> | <b>930.50</b>   |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 11,044.38        | 12,071.89        | 11,974.92        | -96.97        | 930.53          |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.15             | 0.11             | 0.11             | —             | -0.04           |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00             | 1.01             | 1.01             | —             | —               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,105.87         | 3,248.45         | 3,193.76         | -54.69        | 87.90           |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 34.37            | 32.11            | 32.62            | 0.51          | -1.75           |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 152.48           | 152.28           | 153.43           | 1.15          | 0.96            |
| 2.7 अन्य                                | 124.24           | 164.19           | 195.26           | 31.07         | 71.02           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 6,948.06         | 8,506.44         | 9,241.75         | 735.31        | 2,293.69        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>21,410.97</b> | <b>24,176.91</b> | <b>24,793.30</b> | <b>616.39</b> | <b>3,382.32</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 14,324.73        | 15,615.52        | 16,270.08        | 654.56        | 1,945.35        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,435.14         | 1,267.95         | 1,267.95         | —             | -167.18         |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,399.05         | 6,610.46         | 6,570.01         | -40.46        | 1,170.95        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 0.13             | 13.68            | 7.10             | -6.58         | 6.97            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 67.84            | 407.59           | 416.66           | 9.07          | 348.82          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 32.72            | 26.47            | 26.89            | 0.42          | -5.83           |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खज़ाना                              | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 138.16           | 222.04           | 221.41           | -0.64         | 83.25           |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                      | 23 अगस्त 2013 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                 |                          |                  |                |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                         |                  |                  | सप्ताह                     |                 | मार्च 2013 की समाप्ति पर |                  | वर्ष           |                  |
|                                         | बिलियन ₹         | मिलि. अम. डॉलर   | बिलियन ₹                   | मिलि. अम. डॉलर  | बिलियन ₹                 | मिलि. अम. डॉलर   | बिलियन ₹       | मिलि. अम. डॉलर   |
|                                         | 1                | 2                | 3                          | 4               | 5                        | 6                | 7              | 8                |
| <b>1 कुल भंडार</b>                      | <b>17,891.1</b>  | <b>277,722.2</b> | <b>670.0</b>               | <b>-1,085.3</b> | <b>2,006.9</b>           | <b>-14,324.0</b> | <b>1,809.9</b> | <b>-12,457.1</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां              | 16,203.2         | 250,482.5        | 651.8                      | -1,078.6        | 2,076.9                  | -9,243.4         | 1,922.2        | -7,390.0         |
| 1.2 स्वर्ण                              | 1,267.9          | 20,747.0         | —                          | —               | -129.5                   | -4,945.0         | -167.2         | -4,967.7         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                   | 284.0            | 4,389.8          | 12.3                       | -4.5            | 48.6                     | 62.2             | 41.1           | 3.8              |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति | 136.0            | 2,102.9          | 5.9                        | -2.2            | 10.9                     | -197.8           | 13.8           | -103.2           |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 23 अगस्त 2013 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 2,994.7 बिलियन | 2013     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                           | 10 अगस्त | 11 अगस्त | 12 अगस्त | 13 अगस्त | 14 अगस्त | 15 अगस्त | 16 अगस्त | 17 अगस्त | 18 अगस्त | 19 अगस्त | 20 अगस्त | 21 अगस्त | 22 अगस्त | 23 अगस्त |
|                                                                                                           | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                              | 3,231.7  | 3,231.7  | 3,196.2  | 3,196.9  | 3,202.2  | 3,202.2  | 3,248.6  | 3,233.1  | 3,233.1  | 3,195.1  | 3,193.8  | 3,177.5  | 3,179.7  | 3,193.9  |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                              | 107.9    | 107.9    | 106.7    | 106.8    | 106.9    | 106.9    | 108.5    | 108.0    | 108.0    | 106.7    | 106.6    | 106.1    | 106.2    | 106.7    |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                            | 9 अगस्त 2013 को बकाया | निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                       | पखवाड़ा                       | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                       |                               | 2012-2013            | 2013-2014      | 2012           | 2013           |
|                                               | 1                     | 2                             | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>     |                       |                               |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां       | 678.2                 | 4.2                           | -90.2                | -168.3         | 68.0           | -74.1          |
| 1.2 बैंकों से उधार                            | 345.9                 | 33.2                          | -42.1                | -47.7          | -16.8          | 68.7           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 66.9                  | 14.6                          | 10.4                 | -24.0          | -29.2          | -4.9           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                |                       |                               |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 71,036.9              | 168.5                         | 3,772.4              | 3,532.4        | 7,911.5        | 8,173.8        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                        |                       | 0.2                           | 6.4                  | 5.2            | 14.4           | 13.0           |
| 2.1.1.1 मांग                                  | 6,452.1               | -198.5                        | -406.1               | -170.9         | 369.9          | 604.8          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                | 64,584.8              | 366.9                         | 4,178.4              | 3,703.3        | 7,541.6        | 7,568.9        |
| 2.2 उधार                                      | 2,501.8               | -9.5                          | -105.4               | 285.2          | 389.5          | 542.7          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 3,959.1               | 114.9                         | -106.5               | -157.3         | 5.5            | 331.7          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                 | <b>380.3</b>          | <b>35.9</b>                   | <b>-10.8</b>         | <b>164.4</b>   | <b>65.6</b>    | <b>303.5</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष</b> | <b>3,614.5</b>        | <b>41.8</b>                   | <b>30.0</b>          | <b>386.9</b>   | <b>-288.2</b>  | <b>-9.5</b>    |
| 4.1 पास में नकदी                              | 394.2                 | -27.6                         | 21.2                 | -10.7          | 46.5           | 11.6           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष               | 3,220.4               | 69.4                          | 8.8                  | 397.7          | -334.7         | -21.1          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>      |                       |                               |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                    | 1,027.3               | 20.6                          | 82.5                 | 66.5           | 267.3          | 238.2          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि        | 194.4                 | 9.3                           | -25.6                | -101.6         | -7.3           | -12.8          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                          | 122.8                 | 2.6                           | -32.2                | -4.1           | 28.8           | 19.2           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                             | 577.5                 | -37.0                         | 7.1                  | -238.2         | -25.8          | -133.5         |
| <b>6 निवेश</b>                                | <b>21,491.3</b>       | <b>-346.7</b>                 | <b>1,929.3</b>       | <b>1,430.3</b> | <b>2,430.6</b> | <b>2,184.2</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                       | -1.6                          | 11.1                 | 7.1            | 14.4           | 11.3           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                   | 21,467.1              | -346.4                        | 1,930.7              | 1,430.6        | 2,445.8        | 2,186.2        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में            | 24.2                  | -0.2                          | -1.5                 | -0.3           | -15.2          | -2.0           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>55,090.6</b>       | <b>1,038.2</b>                | <b>1,131.7</b>       | <b>2,486.0</b> | <b>6,736.7</b> | <b>7,840.4</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                       | 1.9                           | 2.5                  | 4.7            | 16.6           | 16.6           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 1,084.2               | 72.7                          | 184.8                | 120.0          | 273.4          | 86.4           |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 54,006.4              | 965.4                         | 946.9                | 2,366.0        | 6,463.3        | 7,754.0        |
| 7 ख.1 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट           | 53,076.1              | 980.3                         | 1,168.7              | 2,484.4        | 6,465.8        | 7,547.7        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                       | 268.9                 | 19.5                          | 7.8                  | 20.3           | 63.7           | 97.6           |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                | 1,040.3               | -7.6                          | -5.1                 | -54.3          | 141.1          | 65.6           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                     | 237.2                 | 22.7                          | -22.4                | 22.3           | 12.2           | 47.9           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                | 468.2                 | 23.2                          | -17.3                | 13.4           | 53.8           | 81.6           |

## 5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2012       | 2013       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 24 अगस्त   | 26 जुलाई   | 2 अगस्त    | 9 अगस्त    | 16 अगस्त   | 23 अगस्त   |
|                                                     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.75       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 5.68       | 5.04       | ..         | 5.09       | ..         | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 75.03      | 76.27      | ..         | 77.55      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 28.86      | 43.04      | ..         | 70.38      | ..         | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 31.09      | 30.81      | ..         | 30.25      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 56.75      | 52.82      | ..         | 40.49      | ..         | ..         |
| <b>दर</b>                                           |            |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.00       | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.25       |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.00       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      |
| बैंक दर                                             | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      | 10.25      |
| आधार दर                                             | 9.75/10.50 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.50/9.25  | 7.50/9.00  | 7.50/9.00  | 7.50/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.93       | 8.33       | 9.45       | 9.30       | 10.18      | 10.21      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.23       | 11.00      | 11.26      | 10.92      | 11.43      | 11.05      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..         | 10.73      | ..         | 11.00      | ..         |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.12       | 10.46      | ..         | 9.88       | ..         | 9.94       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.16       | 8.03       | 8.15       | 7.97       | 8.78       | 8.14       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम</b>       |            |            |            |            |            |            |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 55.38      | 58.91      | 60.80      | 61.12      | 61.82      | 64.69      |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 69.48      | 78.22      | 80.37      | 81.54      | 82.45      | 86.30      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह              | 7.80       | 10.29      | 9.87       | 10.01      | 10.29      | 10.02      |
| 3-माह                                               | 7.44       | 9.81       | 9.34       | 9.36       | 9.90       | 9.18       |
| 6-माह                                               | 6.83       | 9.08       | 8.83       | 8.82       | 9.46       | 8.12       |

## 6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |          | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |      |           |      |              |       |         |       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|------|----------------------|------|-----------|------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                    | 2013           |          | पखवाड़ा                   |      | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                    |                |          |                           |      | 2012-2013            |      | 2013-2014 |      | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 9 अगस्त  | राशि                      | %    | राशि                 | %    | राशि      | %    | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                    | 1              | 2        | 3                         | 4    | 5                    | 6    | 7         | 8    | 9            | 10    | 11      | 12    |
| एम३                                                | 83,820.2       | 87,697.0 | 306.8                     | 0.4  | 4,537.2              | 6.2  | 3,876.7   | 4.6  | 9,821.5      | 14.4  | 9,511.4 | 12.2  |
| 1 घटक                                              |                |          |                           |      |                      |      |           |      |              |       |         |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 11,447.4       | 11,715.8 | 134.0                     | 1.2  | 478.1                | 4.7  | 268.4     | 2.3  | 1,200.6      | 12.6  | 1,011.2 | 9.4   |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा                         | 7,469.6        | 7,294.4  | -197.9                    | -2.6 | -413.8               | -5.8 | -175.2    | -2.3 | 450.0        | 7.2   | 598.4   | 8.9   |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा                       | 64,870.9       | 68,622.7 | 368.7                     | 0.5  | 4,475.5              | 8.0  | 3,751.9   | 5.8  | 8,156.2      | 15.5  | 7,863.3 | 12.9  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                 | 32.4           | 64.0     | 2.1                       | 3.3  | -2.6                 | -9.2 | 31.6      | 97.7 | 14.7         | 135.6 | 38.4    | 150.0 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |          |                           |      |                      |      |           |      |              |       |         |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 27,072.1       | 29,187.3 | -484.2                    | -1.6 | 2,152.7              | 9.1  | 2,115.2   | 7.8  | 4,397.1      | 20.5  | 3,317.6 | 12.8  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 5,905.8        | 6,549.1  | -151.9                    |      | 142.7                |      | 643.3     |      | 1,799.2      |       | 1,049.0 |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 21,166.3       | 22,638.2 | -332.3                    | -1.4 | 2,010.0              | 10.9 | 1,471.9   | 7.0  | 2,597.9      | 14.6  | 2,268.6 | 11.1  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 56,646.6       | 59,137.3 | 1,039.4                   | 1.8  | 1,452.7              | 2.9  | 2,490.7   | 4.4  | 7,416.7      | 17.0  | 8,100.2 | 15.9  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 30.6           | 36.0     | 1.0                       |      | 10.6                 |      | 5.5       |      | 33.1         |       | -14.1   |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 56,616.1       | 59,101.3 | 1,038.4                   | 1.8  | 1,442.1              | 2.9  | 2,485.2   | 4.4  | 7,383.6      | 16.9  | 8,114.3 | 15.9  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 16,366.6       | 17,478.3 | 495.2                     | 2.9  | 768.0                | 5.0  | 1,111.7   | 6.8  | 1,790.9      | 12.4  | 1,272.5 | 7.9   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 153.4          | 157.2    | —                         | —    | 6.1                  | 4.5  | 3.8       | 2.5  | 16.9         | 13.7  | 16.7    | 11.9  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 16,418.5       | 18,263.2 | 743.6                     | 4.2  | -157.7               | -1.0 | 1,844.7   | 11.2 | 3,800.2      | 33.7  | 3,195.6 | 21.2  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 6,925.0        | 8,179.7  | 193.5                     | 2.4  | 830.9                | 13.8 | 1,254.7   | 18.1 | 2,698.0      | 64.7  | 1,310.4 | 19.1  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                                  | 2013           |          | सप्ताह                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                                  |                |          |                           |      | 2012-2013            |       | 2013-2014 |       | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 23 अगस्त | राशि                      | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                         | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11      | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 15,148.9       | 15,605.7 | -118.9                    | -0.8 | 235.7                | 1.7   | 456.8     | 3.0   | 818.7        | 6.0   | 1,106.5 | 7.6   |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |          |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 11,909.8       | 12,132.1 | -97.0                     | -0.8 | 514.2                | 4.8   | 222.3     | 1.9   | 1,355.9      | 13.8  | 945.6   | 8.5   |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा                              | 3,206.7        | 3,379.8  | -53.0                     | -1.5 | -270.2               | -7.6  | 173.1     | 5.4   | -529.4       | -13.9 | 87.1    | 2.6   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                               | 32.4           | 93.7     | 31.1                      | 49.6 | -8.4                 | -29.6 | 61.3      | 189.3 | -7.8         | -28.1 | 73.9    | 371.7 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |          |                           |      |                      |       |           |       |              |       |         |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 5,905.8        | 6,577.1  | -47.4                     |      | 41.9                 |       | 671.3     |       | 1,717.9      |       | 1,177.8 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 5,905.0        | 6,570.4  | -40.8                     |      | 55.4                 |       | 665.4     |       | 1,722.1      |       | 1,170.8 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 434.1          | 456.5    | 9.5                       |      | 25.5                 |       | 22.4      |       | 77.7         |       | 343.0   |       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 403.5          | 418.3    | 9.0                       |      | 20.6                 |       | 14.7      |       | 51.7         |       | 349.2   |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 15,580.6       | 17,537.7 | 654.6                     | 3.9  | 1,037.7              | 7.0   | 1,957.1   | 12.6  | 1,449.5      | 10.1  | 1,778.1 | 11.3  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 153.4          | 157.2    | —                         | —    | 7.7                  | 5.7   | 3.8       | 2.5   | 17.4         | 13.9  | 15.0    | 10.6  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 6,925.0        | 9,122.8  | 735.6                     | 8.8  | 877.1                | 14.5  | 2,197.8   | 31.7  | 2,443.9      | 54.7  | 2,207.3 | 31.9  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (तत्काल) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+4+6-2-5) |
|---------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|
|               | रिपो                  | रिवर्स रिपो |        |                      | विक्रय        | क्रय |                                                     |
|               | 1                     | 2           |        |                      | 5             | 6    |                                                     |
| 19 अगस्त 2013 | 386.23                | 0.87        | 473.10 | 45.70                | —             | —    | 904.16                                              |
| 20 अगस्त 2013 | 384.79                | —           | 441.40 | -0.50                | —             | —    | 825.69                                              |
| 21 अगस्त 2013 | 387.78                | 0.60        | 551.05 | 1.00                 | —             | —    | 939.23                                              |
| 22 अगस्त 2013 | 385.00                | 0.33        | 582.85 | -0.30                | —             | —    | 967.22                                              |
| 23 अगस्त 2013 | 377.46                | 0.17        | 559.00 | -36.40               | —             | —    | 899.89                                              |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2012         |              | 2013         |              | प्रतिशत अंतर |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                                     | जून          | जुलाई        | जून          | जुलाई        | माह          | मार्च      | वर्ष       |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6          | 7          |
| <b>1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>164.7</b> | <b>165.8</b> | <b>172.7</b> | <b>175.4</b> | <b>1.6</b>   | <b>3.1</b> | <b>5.8</b> |
| 1.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 215.0        | 219.1        | 232.5        | 238.8        | 2.7          | 7.0        | 9.0        |
| 1.2 ईंधन और बिजली                                                   | 181.1        | 179.5        | 194.0        | 199.8        | 3.0          | 4.3        | 11.3       |
| 1.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 145.3        | 146.1        | 149.3        | 150.2        | 0.6          | 1.0        | 2.8        |
| <b>2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>119.6</b> | <b>121.4</b> | <b>131.4</b> | <b>133.1</b> | <b>1.3</b>   | <b>4.4</b> | <b>9.6</b> |
| 2.1 ग्रामीण                                                         | 120.5        | 122.6        | 132.1        | 133.8        | 1.3          | 4.3        | 9.1        |
| 2.2 शहरी                                                            | 118.5        | 119.9        | 130.5        | 132.2        | 1.3          | 4.5        | 10.3       |
| <b>3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>208.0</b> | <b>212.0</b> | <b>231.0</b> | <b>..</b>    | <b>..</b>    | <b>..</b>  | <b>..</b>  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 26 जुलाई 2013  | 3,361.8                  | 32.4                    | 7.90 - 9.85           |
| 9 अगस्त 2013   | 3,129.1                  | 44.3                    | 9.41 - 11.20          |

## 11. वाणिज्यिक पेपर

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                        |
| 31 जुलाई 2013  | 1,495.8                  | 66.0                    | 7.43 - 12.36             |
| 15 अगस्त 2013  | 1,363.4                  | 83.9                    | 7.82 - 12.84             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 24 अगस्त 2012 | 16 अगस्त 2013 | 23 अगस्त 2013 |
|                          | 1             | 2             | 3             |
| 1 मांग मुद्रा            | 50.6          | 239.7         | 188.0         |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 196.1         | 71.4          | 71.0          |
| 3 सीबीएलओ                | 932.8         | 1,356.8       | 1,350.8       |
| 4 बाजार रिपो             | 998.4         | 736.1         | 1,159.0       |
| 5 कारपोरेट बांड में रिपो | —             | —             | —             |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 23 अगस्त 2013 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                  | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                  | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय        | —           | —                 | 518.7         | 524.6   |
| 91-दिवसीय        | 345.4       | 251.5             | 732.4         | 1,636.5 |
| 182-दिवसीय       | 226.3       | 235.9             | —             | 593.2   |
| 364-दिवसीय       | 257.9       | 579.3             | 6.9           | 1,310.0 |
| सीएमबी           | 121.5       | 160.7             | —             | 470.0   |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई समग्र राशि           |                               |         | जुटाई गई निवल राशि            |                               |         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 2013-14<br>(23 अगस्त 2013 तक) | 2012-13<br>(24 अगस्त 2012 तक) | 2012-13 | 2013-14<br>(23 अगस्त 2013 तक) | 2012-13<br>(24 अगस्त 2012 तक) | 2012-13 |
|                  | 1                             | 2                             | 3       | 4                             | 5                             | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 2,710.0                       | 2,940.0                       | 5,580.0 | 2,462.6                       | 2,193.8                       | 4,673.8 |
| 2. राज्य सरकारें | 538.2                         | 571.2                         | 1,772.8 | 233.9                         | 467.2                         | 1,466.5 |

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।